



Run by: *New Akanksha Shiksha Samiti*
Dr. RADHAKRISHNAN COLLEGE OF EDUCATION
(Recognised by N.C.T.E., Sate Govt. & Affiliated to R.D.V.V. Jabalpur)
Patan Road Near NEW RTO Karmeta, Jabalpur (M.P.)-482002
Phone: 0761-2682004, Website: www.radhakrishnanedu.com
Email: rkce@yahoo.com / choubey_abhi27@yahoo.in



DVV- 5.3.2

Average number of sports and cultural events organized at the institution during the last five years

DVV Query

- Reports of the events along with the photographs with captions and dates
- Copy of circular / brochure indicating such kind of events


Institution response

- Reports of the events along with the photographs with captions and dates
- Copy of circular / brochure indicating such kind of events enclosed


PRINCIPAL
Dr. Radhakrishnan College of
Education Karmeta, Jabalpur

सांस्कृतिक कार्यक्रम

26-1-2018



डॉ. राधाकृष्णन कॉलेज ऑफ रजुकेशन
गणतंत्र दिवस समारोह
रिपोर्ट

No. / /
Dt: / /

"जो भरा नहीं है भागों से
बहती जिसमें रसधार नहीं।
वह हृदय नहीं है पत्थर है,
जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं"।"

हर वर्ष हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। चाहे वह संसद भवन हो या राज भवन, चाहे स्कूल या कॉलेज हो, हर जगह तिरंगा फहराया जाता है। इसी क्रम में हमारे कॉलेज डॉ. राधाकृष्णन कॉलेज ऑफ रजुकेशन में 26 जनवरी 2018 को 68 वाँ गणतंत्र दिवस समारोह अत्यंत ही धर्षोल्लास के साथ मनाया गया।

"वे सलामी इस तिरंगे को,
जिससे तेरी शान है,
सर हमेशा ऊँचा रखना इसका
जब तक दिल में जान है
जय हिन्द, जय भारत"

कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण के द्वारा किया गया। हमारे मुख्य अतिथि "श्री वीरेन्द्र चौबे" जी द्वारा सर्वप्रथम सरस्वती पूजन किया गया। तत्पश्चात् भारत माता को माल्यार्पण कर छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना "जयति जय जय माँ सरस्वती - - -" प्रस्तुत की गई।

तदुपरांत मुख्य अतिथि श्री वीरेन्द्र चौबे जी द्वारा ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान किया गया। एवं "भारत माता की जय", व "वंदे-मातरम" के नारे लगाए गए।

"इतना ही कहना काफी नहीं,
भारत हमारा मान है, अपना फर्ज निभाओ
देश कहे हम उसकी शान है।"

इसके पश्चात् श्री D.K. चौबे जी (सेक्रेट्री) द्वारा मुख्य अतिथि जी का पुष्पगुच्छों से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में न्यू आकांशा हायर सेकेंडरी स्कूल की संचालिका श्रीमति कृष्णा चौबे मैडम, डॉ. राधाकृष्णन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की प्राचार्या महोदया श्रीमति मावना सोनेजी मैम, महाविद्यालय प्रबंधक श्री अम्बिका चौबे जी सर एवं सभी शिक्षकगण श्रीमति ज्योति शुक्ला, समता तिवारी, सुधा पासी, अमीता श्रीवास्तव, मनीषा सौनी, स्वाति श्रीवास्तव, एवं सुमि शर्मा एवं समस्त कर्मचारी उपस्थित थे। कार्यक्रम की बेला को आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम नर्सरी।के.जी. के नन्हे-मुन्हे बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रस्तुती (पापा--मेरेपापा) पेश की गई। छात्र-छात्राओं द्वारा बहुत ही जोश के साथ एक के बाद एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।

"करो कुछ ऐसा की देश का सम्मान बढ़ जाय, भरो तो ऐसा कि तिरंगे की शान बढ़ जाय।

भरो पिचकारी ऐसे तीन रंगों की, जब कपड़ों पर पड़े तो हिंदुस्तान बन जाय।"

गणतंत्र दिवस के इस समारोह को आगे बढ़ते हुए वी.एड. Pind Pevay के छात्र दिनेश शंभु ने एक बहुत ही शिसाप्रद देशभक्ति वाले प्रस्तुत किया। जिसमें तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा मैदान गूँज उठा। वही इस रंगारंग कार्यक्रम में वी.एड. Pind Pevay के छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति पैरोडी "अनेकता

में एकता" विषय पर नृत्य प्रस्तुत किया गया एवं डी एड. Mud Yea के छात्रों द्वारा 'शिक्षा का महत्व' विषय पर संदेशात्मक नाटक प्रस्तुत किया गया।

"महसूस करो अपनी नाड़ियों की स्पंदन को।
जो तुम्हारे महान पुरुषों की देन है।
उठ खड़े हो भारत की एकता के बिरु
जिसने हमें स्वतंत्रता दिखाई, जो हमें
सुरक्षित रखेगी और भारत को विकसित करेगी।"

इस रंगारंग कार्यक्रम में छोटे बच्चों द्वारा दुल्हन चली, देश रंगीला, कूची है नीची डगरिया, मैया यशोदा, गलती से मिस्टेक, चना जोर गरम जैसे मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए गए।

वहीं दूसरी ओर विद्यालय व महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा मिमिक्री, ड्रामा, भाषण समूह गान, एकल गान आदि अनेक मनमोहक प्रस्तुतियों ने शिक्षकों, विद्यार्थियों व सभी दर्शकों का मन मोह लिया।

कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ते हुए महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमति भावना सोनेजी मैम द्वारा सभी की प्रशंसा व प्रोत्साहन हेतु दो शब्द कहे गए। अंत में कार्यक्रम की प्रस्तुतियों हेतु सभी बच्चों को पुरस्कार वितरण व प्रसाद वितरण किया गया। सभी बड़े उत्साहित व हर्षमय थे।

"हर तरफ देखो जय हिन्द का नारा है,
बिरु तिरंगा धांध में देश झूम रहा आज सारा है।
आओ कि प्राया राष्ट्रपर्व गणतंत्र हमारा है,
नमन "माँ भारती" तुझे दिया राष्ट्रपर्व प्यारा है।"
"जय हिन्द, जय भारत"

गणतंत्र
दिवस समारोह
26-1-2018



पञ्चमहायज्ञ

22-1-2018





" वसंत पंचमी उत्सव "

No. / /
Dt. / /

गों श्याकृष्णन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में 22 जनवरी 2018 को माँ सरस्वती जी के पावन पर्व वसंत पंचमी उत्सव को धूमधाम से मनाया गया। वसंत पंचमी हिंदुओं के प्रमुख त्यौहारों में से एक है। जो कि माघ मास की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह वसंत के आगमन तथा हरियाली का प्रतीक है। महाविद्यालय के सभी शिक्षकों व विद्यार्थियों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह उत्सव मनाया। छात्राओं ने माँ सरस्वती जी की प्रतिमा के सामने रंग-बिरंगी रांगोली डालकर कला के रंग बिरंगे प्रतिमा को सुंदर वस्त्र व फूल-मालाओं द्वारा सुसज्जित किया गया।

प्रातः 10:00 बजे माँ सरस्वती जी का पूजन महाविद्यालय के प्रबंधक डी अभिषेक चौबे जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। उन्होंने माँ सरस्वती जी के समक्ष माल्यार्पण कर माँ के चरणों में झींकल व पुष्प भेंट किया।

छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना - करुणामयी - पर्यायिनी - का सुंदर प्रस्तुतीकरण किया गया। साथ ही सरस्वती गीत गाया।

न्यू आकांक्षा समिति की संचालिका डीमिती कृष्ण चौबे, एवं महाविद्यालय की प्राचार्या डीमिती डॉ आवनी सोनेजी द्वारा भी सरस्वतीजीका पूजन- अर्चन किया गया। महाविद्यालय के समस्त शिक्षकों डीमिती ज्योतिराम समता तिवारी, सुधा पाटी, श्वानि डीवास्तव, मनीषा सेनी, सुवि शर्मा, एवं अमीता डीवाल द्वारा भी माँ सरस्वती जी के चरणों में फुलप माला अर्पित किए।

अंत में सभी शिक्षकों, विद्यार्थियों व कर्मचारियों ने माँ सरस्वती जी के चरणों में शीस झुकाकर अपने अपने किया, एवं अपने अपने अविद्य के कर्मों की स्वयं को प्रसाद वितरण किया।


कार्यक्रम का संचालन श्रीमति ज्योति शुक्ला द्वारा किया गया।
एवं सभी ने एक-दूसरे को "वसंत पंचमी" उत्सव
की बधाई दी।

कार्यक्रम प्रभारी-

22/01/18

श्रीमति ज्योति शुक्ला

27/10/2019



PRINCIPAL
Dr. Radhakrishnan College of
Education Karmeta, Jabalpur

डॉ. राधाकृष्णन कॉलेज ऑफ एजुकेशन

"गाँधी जयंती की 150 वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण"

डॉ. राधाकृष्णन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में व्यापक दिनांक 2/9/19 की महात्मा गाँधी जी की 150 वीं वर्षगांठ पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए। माननीय राज्यपाल महोदय के निर्देशानुसार 2 अक्टूबर 2019 को गाँधी जयंती की 150 वीं जयंती पर उनके कार्यक्रम तथा फिल्म का सीधा का आयोजन महाविद्यालय में किया गया जिसमें उनके जीवन से संबंधित सभी दृश्यावली का स्वभावशः किया गया। और विद्यार्थियों को उससे प्रेरणा मिली।

कार्यक्रम का प्रारंभ प्रातः 9 बजे किया गया इस अवसर पर महाविद्यालय के सचिव, श्री अभिलेख चौधरी जी तथा महाविद्यालय की प्राचार्या श्रीमती डॉ. भावना सारनजी शामिल हुईं।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य महात्मा गाँधी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना था। इस कार्यक्रम द्वारा स्वभाव विद्यार्थियों को उनकी जीवन शैली से अवगत कराना था। इस अवसर पर महाविद्यालय में उनके जीवन पर आधारित फिल्म का तथा भापाल में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण विद्यार्थियों को दिखाया गया। स्वभाव विद्यार्थियों सहित स्वभाव प्राध्यापक बाबू भी इस कार्यक्रम को देखने हेतु उत्साहित थे।

प्रातः 11:00 बजे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण महाविद्यालय के सैमिनार हॉल में स्वभाव दाती को एकत्रित कर किया गया। यह प्रसारण लगभग 2 घंटे तक चला। तत्पश्चात्

महाविद्यालय में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। इस कार्यक्रम का सीधे विद्यार्थियों के स्वयंसेवक चुनने किया गया ताकि वे मानवीय मूल्यों की बातों का स्वयंसेवक हों। महात्मा गांधी जी के आदर्शों और सिद्धांतों से छात्रों को अवगत कराने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम का सभी छात्रों एवं विद्यार्थियों तथा प्राध्यापकों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया तथा इसे उत्साहित होकर देखा और गांधी जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया तथा देश की स्वतंत्रता और विकास में अपना योगदान देने का संकल्प लिया। महात्मा गांधी का स्वपूर्ण जीवन देशवासियों के लिए समर्पित था उन्होंने अपने देश की जिम्मेदारी के लिए अपना सर्वस्व बर्बाद कर दिया तथा देश की आजादी कराया। उनकी कल्पित की कहानी तथा उनके आदर्शों को वर्तमान युवा पीढ़ी को समझाने का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है।

कार्यक्रम का समापन महात्मा गांधी की श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए किया गया। अंत में प्राचार्य महाशय जी ने समाप्त विद्यार्थियों को गांधी जयंती की शुभकामनाएं दी और उनके आदर्शों पर चलने की प्रेरणा देते हुए समाप्त विद्यार्थियों का संकल्पित होने का कहना उनके आदर्शों को आत्मसात करने की प्रेरणा देते हुए इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया।